

प्रेस नोट दिनांक 04.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना बढपुरा से ट्रैक्टर चोरी के मुकदमें में वांछित एवं 10000 /- के इनामिया

अभियुक्त को अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा थाना बढपुरा से ट्रैक्टर चोरी के मुकदमें में वांछित एवं 10000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03/04.05.2021 की रात्रि को SOG इटावा एवं थाना इकदिल पुलिस द्वारा पंचायता चुनाव में आये परिणामों के फलस्वरूप क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शान्तिव्यवस्था के दृष्टिगत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान चलाया गया था । जिसमें पुलिस टीम द्वारा ग्वालियर बाईपास पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि थाना बढपुरा से ट्रैक्टर चोरी के मुकदमें में वांछित और इनामिया अभियुक्त जो कि अवैध असलहा लिये है मानिकपुर मोड पर रिलाईन्स पेट्रोल पम्प की तरफ कही जाने की फिराक में खडा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए SOG इटावा व थाना इकदिल की संयुक्त पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पहुँचे तो देखा कि एक व्यक्ति देसरमउ जाने वाले रोड के सामने खडा था । जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा संदिग्ध प्रतीत होने पर SOG इटावा एवं थाना इकदिल पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पीछा कर घेरकर पकड लिया गया ।

पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम व पता बताया तथा अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 तमंचा 315 व 02 कारतूस बरामद हुए । पुलिस टीम द्वारा बरामद असलहा का लाइसेंस तलब करने पर अभियुक्त लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहा । पकडे गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह थाना बढपुरा से ट्रैक्टर चोरी के एक मुकदमें में वांछित अभियुक्त है तथा अब पुलिस से बचने के लिए अपने गाँव महमूदपुर थाना अयाना जिला औरैया जा रहा था ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 132/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अनीश कुमार उर्फ भूल्लू पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट महमूदपुर थाना अयाना जनपद औरैया
बरामदगी:-

1. 01 अदद तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस

पुलिस टीम:-

प्रथम टीम- उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र यादव प्रभारी SOG, उ0नि0 श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलासं मय टीम ।

द्वितीय टीम:- निरीक्षक जीवाराम यादव प्रभारी थाना इकदिल इटावा ,उ0नि0 दर्शन सिंह, का0 जसवन्त सिंह ,का0 विक्रम सिंह

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा